



“ मुंशीप्रेमचंद – सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ता सम्मान ”
तृतीय चरण प्रतियोगिता (Final Round)
कक्षा वर्ग - 1 से 5वीं तक

“वाचन कौशल छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल को निखारता है तथा इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है।”
काका कालेलकर

प्रिय अभिभावक गण ,

यात्रा के गंतव्य से ज्यादा पड़ाव और अनुभवों का अधिक मूल्य होता है। मुंशी प्रेमचंद प्रतियोगिता के प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की प्रतियोगिता में सभी छात्रों ने अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया। सभी चयनित छात्रों ने भाषा सीखने सीखाने के सभी आयामों का सफल रूप से अर्जन करते हुए उनका निर्वाह किया। अतः हम प्रतियोगिता के तृतीय चरण के माध्यम से भाषा कौशल तथा इस सीखने सीखाने के सफर को उसके अंतिम तथा निर्णायक चरण की तरफ ले जाते हुए सभी चयनित छात्रों को मुंशी प्रेमचंद प्रतियोगिता के तृतीय चरण के लिए आमंत्रित करते हैं।

उक्त प्रतियोगिता का प्रायोजन छात्रों में वाचन कौशल का विकास करने के लिए किया जा रहा है तथा उनमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का कौशल भी विकसित होता है। सभी चयनित छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाएगा।

तृतीय चरण : अविचारित वक्तृत्व अर्थात् वाचन प्रतियोगिता (Extempore)			
दिन एवं दिनांक (Day & Date)	समय (Time)	स्थान (Venue)	निर्णय मापदंड (Judgement Criteria)
शुक्रवार 28 जनवरी 2022	11:00 से 02:00 मध्यान	Microsoft Teams	विषय स्पष्टीकरण , भाषा शुद्धता तथा उच्चारण , उचित हाव – भाव तथा आत्मविश्वास , भाषा – प्रयोग

प्रतियोगिता के द्वितीय चरण संबंधित निर्देश :-

- 1) द्वितीय स्तर में चयनित छात्र ही प्रतियोगिता के तृतीय स्तर में भाग ले सकते हैं।
- 2) छात्रों को अपने विचार प्रकट करने के लिए दो मिनट का समय दिया जाएगा। छात्र अपने विचार विषय के पक्ष या विपक्ष के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
- 3) छात्रों को निर्धारित विषय प्रतियोगिता से 1 घंटा पूर्व प्रदर्शित किया जाएगा तथा विषय तैयार करने के लिए एक घंटे का समय दिया जाएगा।
- 4) छात्र परिचय को समय सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।
- 5) निर्णायकगणों का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

Gurjeet Kaur

Co Curricular Coordinator

Anubha Srivastava

Principal